



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 62) पटना, बुधवार, 8 जनवरी 2014

गन्ना उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश

31 अक्टूबर 2013

सं0 बि.ऊ.-02-18/2011-2158—पेराई वर्ष 2013-14 के लिए मेसर्स न्यू इंडिया सुगर मिल्स, ढाढ़ा बुजुर्ग (हाटा), जिला— कुशीनगर, उत्तर प्रदेश को पथ क्रय केन्द्र आवंटन से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर विभिन्न चीनी मिलों के प्रतिनिधियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के समक्ष दिनांक 25.10.2013 को सुनवाई की गई।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद कर विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-29 के अंतर्गत पथ केन्द्रों की स्वीकृति से संबंधित मेसर्स न्यू इंडिया सुगर मिल्स, हाटा, जिला—कुशीनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला के धनहा मुक्त क्षेत्र से मिल गेट सहित कुल 4 पथ क्रय केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्रस्ताव से सभी पक्षों को अवगत कराया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर उपस्थित सभी पक्षों एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया। मेसर्स न्यू इंडिया सुगर मिल्स, ढाढ़ा बुजुर्ग (हाटा), जिला—कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के प्राप्त प्रस्ताव पर गन्ने की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति विभागीय विशेष ईख पदाधिकारी (गोपालगंज) की अनुशंसा/मंतव्य, किसानों के लिए ईखापूर्ति में सुविधा एवं संचिका पर उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरान्त ईख अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पेराई वर्ष 2013-14 के लिए इस चीनी मिल को धनहॉ मुक्त क्षेत्र से गन्ना उठाव हेतु निम्नलिखित 2 पथ केन्द्रों पर अंकित मात्रा में गन्ना खरीद की स्वीकृति दी जाती है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रय केन्द्र का नाम	राजस्व थाना संख्या	आवंटित गन्ने की मात्रा (लाख क्विंटल में)
01.		ठकराहॉ	घूमनगर (मलाहीघाट)	432	0.75
02.		ठकराहॉ	मोतीटोला / रूपाटोला	433	0.75
			कुल योग :-	—	

2. मेसर्स न्यू इंडिया सुगर मिल्स, ढाढ़ा बुजुर्ग (हाटा), जिला—कुशीनगर, उत्तर प्रदेश द्वारा बिहार के किसानों को उस ईख मूल्य दर से भुगतान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार की दरों में से अधिक हो।

3. आवंटित सभी पथ क्रय केन्द्रों का परिचालन चीनी मिल चलने के साथ ही आरम्भ किया जाए। बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद कर विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा-26 एवं 27 के साथ बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद कर विनियमन) नियमावली, 1978 की धारा-22,23,24,27 एवं 30 का सम्यक रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में ईख अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

4. विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज दैनिक ईख खरीद की मात्रा एवं स्वीकृत नये पथ क्रय केन्द्रों का स्थल चयन करेंगे। यथासंभव सार्वजनिक अथवा गैर विवादित स्थल पर क्रय केन्द्र स्थापित करेंगे। स्थल चयन के क्रम में विशेष ईख पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रय केन्द्र का स्थापना स्वीकृत राजस्व थाना के क्षेत्र अंतर्गत ही स्थापित हो। ईख पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिलों के माध्यम से उनके आरक्षित क्षेत्र सहित नये गठित क्षेत्रों में भी मिल चलाने के पूर्व ईख आच्छादन का सर्वेक्षण का कार्य नई सर्वेक्षण नीति विभागीय पत्रांक 800 दिनांक 23.04.2013 के अनुसार संपन्न हो एवं उसके आधार पर पर्चियों की वितरण समानुपातिक रूप में हो तथा उसमें किसी भी प्रकार के विचौलियों का समावेश नहीं हो।

5. G.P.S के माध्यम से सम्पादित सर्वेक्षण के बाद नई सट्टानीति के अनुसार कैलेण्ड्रिंग, पर्ची वितरण की व्यवस्था मिल प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।

6. पथ क्रय केंद्रों की स्थापना एवं परिचालन हेतु विभागीय पत्रांक-2108 दिनांक 24.10.2013 के माध्यम से घोषित नई नीति के अनुसार ही पथ क्रय केंद्र स्थापित एवं परिचालित किये जा सकेंगे। संबंधित ईख पदाधिकारी इसका शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित करायेगें।

7. विभागीय आदेश संख्या 1283 दिनांक 05.07.2013 का अनुपालन कर सभी तौल सेतु न्यूनतम 5 टन के कम्प्यूटराईज्ड एवं लोड सेल के साथ स्थापित होगा। स्थानीय ईख पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। इसमें किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं होगा।

8. चीनी मिल क्रय केंद्र के परिचालन के पूर्व क्रय केंद्रों का पदस्थापित किये जाने वाले अपने मिल कर्मियों की सूची विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि माहवार तौल लिपिकों का स्थानांतरण किया जाय। इसकी भी सूचना समय-समय पर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
ईखायुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 62-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>